



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 412) पटना, मंगलवार, 31 मार्च 2015

वित्त विभाग
(वित्त आयोग प्रभाग)

अधिसूचना

30 मार्च 2015

सं0 SFC/23/1/15-Extention-3298-वि0—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(I) सहपठित 243(Y) के अनुपालन में तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 168 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 71 के प्रावधानों के अंतर्गत पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-12530 दिनांक 13.12.2013 द्वारा किया गया था। आयोग का कार्यकाल दिनांक 31.03.2015 तक निर्धारित है।

आयोग द्वारा उक्त अधिसूचना में अंकित टर्म्स ऑफ रेफरेंस के आलोक में दिनांक 31.03.2015 तक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना था। परंतु कतिपय कारणों से आयोग द्वारा प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया जा सका है।

राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत टर्म्स ऑफ रेफरेंस में अंकित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु आयोग का कार्यकाल दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक अवधि विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रभात शंकर,
सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 412-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>